

Member of Parliament Local Area Development Scheme



भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAWAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

सं.सी-42/2011-एमपीलैड्स

Dated..... 14 सितंबर, 2012

सेवा में,

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नोडल सचिव
आयुक्त, नगर निगम, दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई/मुंबई
सभी जिलों के कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त ।

विषय: एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में संशोधन - 2% प्रशासनिक व्यय का उपयोग

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 8 अगस्त, 2011 के समसंख्यक पत्र के तहत इस मंत्रालय द्वारा जारी सुधार परिपत्र सं.7 का संदर्भ लें ।

2. सुधार परिपत्र जारी करने के अनुसरण में, विभिन्न राज्य सरकारों से यह सूचना प्रदान करते हुए अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि संसद-सदस्य की अनुशंसाओं की प्रोसेसिंग/स्वीकृति को छोड़कर, राज्य स्तर पर इस योजना का कार्य-संचालन जिला स्तर पर कार्य-संचालन के लगभग समान है तथा राज्य स्तर पर स्टेशनरी, कार्यालय उपस्कर एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर, आदि की आवश्यकता होती है । योजना की प्रभावी निगरानी के लिए राज्य नोडल विभाग को सक्षम बनाने हेतु, इसी प्रकार प्रशासनिक व्यय के उपयोग की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । इस मामले की तदनुसार जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित दिशानिर्देशों के पैरा 4.17(II) (क) के साथ पठित सुधार परिपत्र के पैरा 3(क) का विस्तार किया जाए ताकि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के नोडल विभाग 'प्रशासनिक व्यय' के तहत निम्नलिखित कार्यकलापों को शामिल कर सकें:-

- (i) तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण-वास्तविक लेखा परीक्षा और गुणवत्ता जांच, तथा
- (ii) राज्य स्तर पर कार्यों की निगरानी,
- (iii) हिन्दी को छोड़कर, संबंधित क्षेत्रीय भाषा में एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का अनुवाद एवं मुद्रण (हिन्दी रूपांतर भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा) ।
- (iv) आंकड़ा प्रविष्टि संबंधी कार्य करने, वेबसाइट पर आंकड़े अपलोड करने, इत्यादि के लिए सेवादाताओं/परामर्शकों को किराए पर लेना,
- (v) जनता के बीच योजना के विषय में जागरूकता पैदा करना तथा चल रहे और पूरे हो चुके कार्यों की सूचना का प्रसार करना,

